

मोहल्ला गणित लर्निंग कैंप FAQ

मूल्याङ्कन प्रपत्र, फॉर्मेट और शिक्षण सामग्री से सम्बन्धी

1. टेस्टिंग करते समय अगर बच्चा खुद अँगुली रखकर नहीं पढ़ता है तो क्या करना चाहिए ?
उत्तर- सबसे पहले बच्चे को स्वयं पढ़ने का मौका दें अगर वह स्वयं अँगुली रखकर नहीं पढ़ रहा है तो आप अँगुली से करके पूछ सकते हैं।
2. जोड़ और घटाव में क्या बच्चों से चिन्ह के बारे में पूछना है ?
उत्तर- नहीं।
3. टेस्टिंग में सबसे पहले हम घटाव से शुरू करते थे इस बार हम 0-9 शुरुआत क्यों कर रहे हैं?
उत्तर- स्वयंसेवक को समझने में आसानी होगी। क्योंकि स्वयं सेवक पहली बार यह टेस्टिंग कर रहे हैं।
4. क्या टूल का प्रिंट लेना है ?
उत्तर- हाँ ! टूल का प्रिन्ट लेना है।
5. टूल के कितने सैपल है ?
उत्तर- टूल के 2 सैम्पल हैं।
6. क्या फॉर्मेट का प्रिंट होगा?
उत्तर- हाँ
7. अगर बच्चा एक हप्ते के बाद आता है तो क्या उसे कक्षा में शामिल करना चाहिए?
उत्तर- कैंप के दौरान यदि कोई बच्चा बिच मे जॉइन हो रहा हो तो उसका बेस लाइन कराना अनिवार्य है।
8. यदि बच्चे ने SMS नहीं देखा या पता नहीं है तो क्या करेंगे?
उत्तर- सबसे पहले बच्चे से पूछें अगर बच्चा नहीं बता पाता है तो अभिभावक के साथ बातचीत करके सुनिश्चित करें। यदि अभिभावक को भी पता नहीं हो तो उन्हें एक बार फोन पर मेसेज देखकर कन्फर्म करने को कहे।
9. मोहल्ला लर्निंग कैंप के लिए टारगेट बच्चे कौन होंगे ?
उत्तर- प्रारंभिक, 0-9, 10-99 और जोड़ स्तर के बच्चे टारगेट होंगे।
10. Baseline - Endline किन बच्चो के साथ होगा? सभी या टारगेट?
उत्तर – Baseline सभी बच्चो का होगा और End line सिर्फ टारगेट बच्चों की होगी।

11. वार्मअप गतिविधि में क्या भाषा की गतिविधि को शामिल करना चाहिए ?

उत्तर- नहीं! कोशिश करें गणित से संबंधित वार्मअप गतिविधि के दौरान फोकस किया जाय।

12. क्या शिक्षण से सम्बन्धी मटेरियल प्रिंट होगा?

उत्तर- शिक्षण सामाग्री प्रिंट नहीं होगा। सामग्री का निर्माण किया जायेगा।

13. क्या प्रशिक्षण से पहले मटेरियल तैयार होने चाहिए?

उत्तर- हाँ ! प्रशिक्षक पहले से मटेरियल्स तैयार करके रखें।

14. संख्या चार्ट का लेआउट किस प्रकार होना चाहिए ?

उत्तर- संख्या चार्ट का लेआउट अपने राज्य की टेक्स्ट बुक के आधार पर सुनिश्चित करें।

15. टेक्स्ट बुक का उपयोग कौन सी कक्षा का करना चाहिए ?

उत्तर- कक्षा 2 या 3 ज्यादा उपयोगी हो सकता है।

16. EFE का प्रशिक्षण कब होगा?

उत्तर- आगामी सोमवार से योजना है।

17. रेडीनेस का प्रशिक्षण कब होगा?

उत्तर- आगामी बुधवार से योजना है।

18. क्या रेडीनेस कैम्प और मोहल्ला गणित लर्निंग कैम्प के स्वयंसेवक एक हो सकते हैं ?

उत्तर- कोशिश करें कि दोनों स्वयंसेवी अलग-अलग हो।

19. यदि किसी कैम्प में बच्चों का लेवल 10-99 तक है तो पहले हफ्ते में 100 तक के ऊपर काम करना शुरू करना चाहिए ?

उत्तर- नहीं ! सप्ताह के अनुसार फोकस करें ताकि अन्य बच्चे भी सकें। आप 1-20 तक की संक्रियाएँ, विस्तार, प्लेस वैल्यू और अन्य की पक्की समझ पर काम कर सकते हैं।

20. जो बच्चें घटाव या उससे ऊपर स्तर के हैं और वे मेरे कैम्प में आते हैं तो क्या उन्हें अपने कैम्प में शामिल कर सकते हैं ?

उत्तर- यदि ऐसे बच्चें कैम्प में आते हैं तो उनको जरूर जरूर करें लेकिन वे टारगेट बच्चें नहीं होंगे। आप उनका एक अलग ग्रुप बनाकर कार्य कर सकते हैं। कार्य की जिम्मेदारी ग्रुप लीडर को दी जा सकती है।

21. क्या कक्षा में स्तरानुसार समूह बनाने है?

उत्तर- नहीं, क्योंकि हमारे कैम्प में सिर्फ ८ से १० बच्चे शामिल होंगे | इसलिए सभी गतिविधियों का डेमो सभी बच्चों के साथ करेंगे। लेकिन अभ्यास के लिए २-२ के या ३ से ४ बच्चों का छोटा समूह बना सकते हैं।